

Manufacturers of Artificial Leather/PVC Vinyl

Ref: MUL/SEC/2020-21/153

Date: February 05, 2021

To

BSE Limited Phirozee Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001

Trading Symbol

Trading Symbol: MAYURUNIQ

(East), Mumbai- 400 051

National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/

G-Block, Bandra-Kurla Complex, Band

Dear Sir/ Madam

Scrip Code: 522249

Sub: Notice of Board Meeting- Advertisement

In continuation to our letter dated February 04, 2021 with regard to the intimation of the Board Meeting schedule to be held on Friday, February 12, 2021, please find enclosed herewith a copy of the advertisement published in the English (Financial Express- All Edition and Economic Times-Mumbai Edition) and Regional (Nafa Nuksan) newspaper on February 05, 2021.

This is for your information and records.

Thanking you, Yours Sincerely,

For Mayur Uniquoters Limited

Rahui Joshi

Company Secretary & Compliance Officer

M.No.ACS33135

A Texture For Every Idea



FINANCIAL EXPRESS

1st Floor, Kumar Capital, 2413, East Street, Camp, Pune - 411 001 Tel.: 26350660, 30528888, Fax: 91-20-26353365, Email: tax@megapolis.co.in CIN: L65910PN1994PLC138655 Notice of Board Meeting Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and

Bhagyashree Leasing And Finance Limited

Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 Notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of Bhagyashree Leasing and Finance Limited (the Company) will be held on Thursday, the 11th Day of February, 2021 at 01.00 P.M. at 2413, 1" Floor, Kumar Capital, East Street, Camp, Pune 411001 to inter-alia consider and approve the unaudited financial results of the Company for the quarter and nine months ended on December 31, 2020. The aforementioned information can also be accessed on the website of the

Stock Exchange i.e. www.bseindia.com.

For Bhagyashree Leasing & Finance Limited

Date: 05.02.2021 Place: Pune

Rajas Jain Director & CEO

 ${\mathfrak G}$

FORCE MOTORS LIMITED CIN L34102PN1958PLC011172 Regd. Office: Mumbai-Pune Road, Akurdi, Pune - 411 035, INDIA.

FORCE NOTICE OF BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT a meeting of the Board of Directors will be held on Friday, 12th February 2021, to consider, inter alia, the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the guarter and nine-months ended on 31st December 2020.

This intimation is also available on the website of the Company and the website of BSE Limited at www.forcemotors.com and www.bseindia.com respectively.

For Force Motors Limited

Kishore P. Shah

of NIT i.e. 19/02/2021.

ISSUED BY P.R.O. (WATER)

Advt. No. J.S.V. 373/2020-21

SeQuent Scientific Limited

Registered Office: 301, 3" Floor, 'Dosti Pinnacle', Plot No. E7, Road No. 22, Wagle Industrial Estate, Thane (W) - 400 604, Maharashtra, India

Tel. +91 22 41114777, Website: www.sequent.in, Email: investorrelations@sequent.in

EXTRACT OF THE UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR

THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2020

Preceding

3 months ended

30-Sep-2020

UNAUDITED

34.627.20

3,836.30

2,932.40

2,136.40

3,912.00

4,967.40

0.86

0.86

Preceding

3 months ended

30-Sep-2020

UNAUDITED

6.964.10

1,103.20

4,319.00

921.40

3 months ended

31-Dec-2020

UNAUDITED

35,821.40

5,133.00

5,133.00

3,969.10

5,160.30

4.967.40

1.52

1.52

SUMMARIZED UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2020

3 months ended

31-Dec-2020

UNAUDITED

approved by the Board of Directors and filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

ARVIND LIMITED

CIN - L17119GJ1931PLC000093

Website: www.arvind.com : Email: Investor@arvind.in

Regd. Office: Naroda Road, Ahmedabad - 380025

A MEMBER OF LALBHAI GROUP

STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2020

7,057.20

1,611.10

1,216.90

1,776.90

The above information has been extracted from the detailed financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2020 which have been reviewed by the Audit Committee and

2. The full format of the financial results for the guarter and nine months ended December 31, 2020 are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and

Place: Pune Date: 4th February 2021

MILESTONE GLOBAL LIMITED CIN: L93000KA1990PLC011082 Regd. Off: 54-B, Hoskote Industrial Area (KIADB),

Company Secretary & Compliance Officer

Chintamani Road, Hoskote – 562 114, Karnataka, India. Phone Off: 91-80-27971334 Website: www.milestonegloballimited.com NOTICE

Notice is hereby given that the next meeting of Board of Directors of the Company will be held at # A-56. Gulmohar Park, New Delhi-110049 on Friday, the 12th Day of February, 2021 at 02:30 p.m. inter alia consider & approve the unaudited quarterly financial results

for the guarter ended 31st December, 2020 as per SEBI

(Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015.

Revenue from operations

Equity share capital

Revenue from operations

Place: Thane

\CVIND

1 Total Income from Operations

Paid up Equity Share Capital

No.

Notes:

financialexp.er

Date: 03 February, 2021

Other Comprehensive Income /(Loss) (after tax)]

Other equity

Basic (in ₹)

Diluted (in ₹)

For Milestone Global Limited

Particulars

Earnings per equity share:(face value of ₹ 2 each) (not annualised)

Particulars

Net Profit) /(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)

Net Profit /(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)

Total Comprehensive Income /(Loss) for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and

Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year

Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic: (₹)

Net Profit /(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)

Net profit for the period before tax (after exceptional items)

Net profit for the period after tax (after exceptional items)

Total comprehensive income / (expenses)

Company's website (www.sequent.in).

Net profit for the period (before tax and exceptional items)

Net profit for the period before tax (after exceptional items)

Net profit for the period after tax (after exceptional items)

Total comprehensive income / (expenses)

05.02.2021 Anita Rawat Company Secretary Bangalore

M Mayur Uniquoters Limited

Regd. Office and Works: Village-Jaitpura, Jaipur-Sikar Road, Tehsil-Chomu, Distt. Jaipur-303704 (Raj.) India. Website: www.mayuruniquoters.com Email: secr@mayur.biz Tel: 91-1423-224001 Fax: 91-1423-224420 CIN: L18101RJ1992PLC006952

NOTICE OF BOARD MEETING Under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, February 12, 2021 at 1:30 P.M. through Video Conferencing, interalia, to consider and approve the Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the guarter and nine months ended on December 31, 2020 and to take on record the Limited Review Report thereon.

The information contained in this notice is also available on the Company's website www.mayuruniquoters.com and also on the website of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Mayur Uniquoters Limited Rahul Joshi Date: February 04, 2021 Place: Jaipur

Company Secretary & Compliance Officer Membership No. ACS33135 Delhi Jal Board: Govt. of NCT of Delhi

Office of the Executive Engineer (Civil)-SDW-NW

Opposite RBI Colony Shalimar Bagh, SPS New Delhi-88

"STOP CORONA: Wear Mask. Follow Physical Distancing and Maintain Hand Hygiene'

CORRIGENDUM

PRESS NIT No.16(2020-21), Item No.1

[Tender ID: 2021 DJB 199336 1] Due Date: 19/02/2021

In reference to "ENDORSEMENT" letter no.DJB/2020-21/MISC-II(PT)/971 dated 23/12/2020 of Jt. Director(F&A)-I,

deposition of EMD is Exempted during Call of Tenders. Further, in lieu of non-deposition of EMD (Bid Security)

the bidder should Sign "Bid Security/EMD Declaration" accepting that if bidder withdraw or modify his bids during

period of validity etc; bidder will be suspended for the time specified in the tender documents as per above

ENDORSEMENT letter and submit this declaration on E-stamp paper or on the firm letter head before the due date

Corresponding

3 months

ended in

previous period

31-Dec-2019

UNAUDITED

31,642.10

2,831.10

2,831.10

2,405.80

4,627.30

4.967.40

0.83

0.83

Corresponding 3

months ended

in previous

period

31-Dec-2019

UNAUDITED

Quarter Ended

1318.95

(19.80)

(5.86)

258.92

2.12

0.03

0.03

2.54

1526.14

48.53

48.16

22.44

31.58

258.92

0.96

0.96

6.179.90

469.20

291.83

2,425.73

Year to date

figure for

current period

ended

31-Dec-2020

UNAUDITED

1,01,475.10

12,158.40

11,254.50

8,552.50

15,477.60

4.967.40

3.24

3.22

Year to date

figure for

current period

ended

31-Dec-2020

UNAUDITED

19,945.70

3,594.00

2,829.50

10,882.40

31.12.2020 | 30.09.2020 | 31.12.2019 | **31.12.2020** | 31.12.2019 | **31.03.2020**

3448.31

(105.03)

(127.74)

(80.73)

(55.63)

258.92

(2.69)

(2.69)

Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited

1882.98

61.67

59.81

35.35

19.67

258.77

1.38

1.38

So, bidders will not deposit EMD against this NIT. All other term & conditions will remain the same.

By the Order of the Board

Phone No. 27491437, Email id: eecsdwnw@gmail.com

Ceinsys Tech Ltd

(Anil Kumar Sharma)

EXECUTIVE ENGINEER (CIVIL)SDW-NW

Year to date

figure for

previous

period ended

31-Dec-2019

UNAUDITED

87,866.10

6,993.60

6,993.60

6,382.00

3,481.60

4.967.40

2.18

2.17

Year to date

figure for

previous period

ended

31-Dec-2019

UNAUDITED

16.503.90

1,275.70

1,452.54

(2,116.56)

For SeQuent Scientific Limited

[₹ In Crores except per share data]

Nine Months Ended | Year Ended

5774.09

181.98

178.80

109.42

258.77

4.17

4.17

64.86

(₹ in Lakhs

Previous year

ended

31-Mar-2020

AUDITED

1,17,924.40

9,407.50

9,407.50

8,204.60

5,026.00

4,967.40

69,308.60

(₹ in Lakhs

Previous year

ended

31-Mar-2020

AUDITED

22,733.30

2,281.30

2,134.14

(2,724.06)

Manish Gupta

Audited

7424.24

218.00

167.79

92.10

28.98

258.77

3.70

3.70

2,449.81

Managing Director

2.87

2.85

Registered Office: 10/5, I.T. Park, Nagpur - 440022 MH, India CIN: L72300MH1998PLC114790 E-mail: cs@ ceinsys.com, Website: www.ceinsys.com Tel No.: 91 712 6782800

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the company is scheduled to be held on Friday, 12" February, 2021 at the registered office of the company at 10/5, I. T. Park, Nagpur - 440022 inter alia, to consider and approve Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results along with their Limited Review Report for the quarter/nine months ended 31" December, 2020 along with other agenda.

The information is also available on the website of the company at www.ceinsys.com and website of BSE Ltd. at www.bseindia.com.

For Ceinsys Tech Limited

Date: 4" February, 2021 Saurabh Somani Company Secretary & Compliance Officer Place: Nagpur

> ADVANCE METERING TECHNOLOGY LIMITED CIN: L31401DL2011PLC271394

Registered Office: E-8/1, Near Geeta Bhawan Mandir, Malviya Nagar, New Delhi-110017 Corporate Office: 06th Floor, Plot No. 19 & 20, Sector-142, Noida-201304, U.P. Tel: 0120 4531400 Email: corporate@pkrgroup.in Web: www.pkrgroup.in

Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 015. Notice is hereby given that a meeting of Board of Thursday, February 11, 2021 inter-alia, to consider Results for the Quarter and Nine months ended December 31, 2020. (visit: www.pkrgroup.in & www.bseindia.com By order of the Board For Advance Metering Technology Limited

ursuant to Regulation 29 & 47 of the SEBI (Listing

Date: 04.02.2021

& Company Secretary

Rakesh Dhody

Place: Mumbai

Place: Noida

Date: 4th February, 2021

AVP (Corporate Affairs)

0 CSL Finance Limited

Regd. Office: 410-412, 18/12, 4th Floor, W.E.A. Anva Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005 Corp. Office: 716-717, 7th Floor, Tower- B, World Trade Tower, Sector-16, Noida, U.P.-201301 (CIN: L74899DL1992PLC051462:

Tel: 0120-4290650; Email: info@cstfinance.in; Web: www.cslfinance.in) NOTICE Pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, Notice is hereby given that the eeting of the Board of Directors of the Company will be eld on Friday, February 12, 2021, to inter-alia consider Inaudited Standalone Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31 2020 at the corporate office of the company. The said notice is also available on the website of the Company i.e. www.cslfinance.in and on the website of

Stock Exchange i.e. www.bseindia.com. By order of the Board

Place: New Delhi (Rohit Gupta)

RAJPUTANA INVESTMENT & FINANCE LTD

Regd. Off.: Flat No. 601, 6th Floor., Nanda Tower, 90 Phears Lane, Kolkata - 700 012 Corporate Office Address: 8/82/3, BRD Complex, Kozhikode Road, Parempadam Kunnamkulam Via, Thrissur Dist Kerala - 680 519

Email ID: info@rajputanainvestment.com Website: www.raiputanainvestment.com Ph. No.: 91+ 82320 27550 CIN: L65929WB1941PLC010731

NOTICE Notice is hereby given that pursuant to

Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thrusday, the February 11 2021 at the Corporate Office of the Company to take on record the Un-Audited Quarterly Financial Result of the Company for the third quarter and nine months ended on December 31, 2020.

The information contained in the notice is also available at the company's website http://www.www.rajputanainvestment.com/ and website of the stock exchange at www.bseindia.com.

or Rajputana Investment & Finance Ltd. Sd/- Annu Jain Place: Kolkata Date: 04-02-2021 (Company Secretary)

B.C. POWER CONTROLS LIMITED

(CIN: L31300DL2008PLC179414)

Regd. Office: 7A/39, WEA Channa

Market, Karol Bagh, New Delhi-110005

Email: info@bonlongroup.com

Website: www.bcpowercontrols.com

Phone: 011-47532795, Fax: 011-47532798

NOTICE Pursuant to Regulation 47 read with

Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations

and Disclosure Requirements) Regulations,

2015, notice is hereby given that a meeting of

the Board of Directors of the Company will be

Regd. Office: 325, 3rd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi - 110 085

CIN: L52110DL1984PLC019625

Ph: 9810260127 | Email: deltaindltd@gmail.com | Website:www.dirl.in

SI No.	Particulars	Quarter Ended 31/12/2020 (Unaudited)	Year to date Figures for 9 months Ended 31/12/2020 (Unaudited)	Corresponding 3 months Ended in the previous year 31/12/2019 (Unaudited)
1.	Total income from operations	13.09	182.90	9.02
	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	9.33	30.05	6.37
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	9.33	30.05	6.37
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax	9.33	30.03	0.37
7.	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	6.90	22.24	4.71
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit /(Loss) for the period (after tax)	(5),850	NAME OF THE OWNER, OF	Softe.c
	and other Comprehensive Income (after tax)]	7.14	23.38	4.66
6.	Equity Share Capital	539.30	539.30	539.30
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown	- 500		1900

The above is an extract of the detailed format of Un-audited Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-Audited Quarterly Financial Results are available on the Website of the Company i.e (www.dirl.in) and website of the stock Exchange(s) (www.bse-

The above result have been reviewed by the audit committee and approved by the Board at their meeting held on 03rd February, 2021.

The Financial result have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Ind-as rules (As amended).

(V)(L) VXL Instruments Limited Registered Office: No. 252, 5th Floor, Building No. 2 Solitaire Corporate Park

Chakala, Andheri East, Mumbai - 400093, Maharashtra, Tel: 080 22589048 E-Mail - cfo@vxl.net CIN: L85110MH1986PLC272426

6 0	1	8 55	111	(Rs. in Lakhs e.	except for Earnings per share)			
SI. No.	Particulars	3 months ended	Preceding 3 Months ended	Corresponding 3 Months ended in the previous year	Year to Date Figures for Current Period Ended	Year to Date Figures for Previous Period Ended Un-Audited	Previous Financial Year Ended Audited	
		Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited			
		31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020	
1	Total Income from Operations (net)	290,76	125.31	559.33	502.76	1,309.12	1,960.02	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(42.53)	(87.28)	(15.68)	(223.70)	(80.43)	(95.79)	
3	Exceptional Items	328.36	14	- 3	328.36		(0.25)	
4	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	285.83	(87.28)	(15.68)	104.66	(80.43)	(96.04)	
5	Tax Expenses	156.70		000 grant 1940 C. S	156.70	115-11-50-7	1,100,000,000	
6	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	129.13	(87.28)	(15.68)	(52.04)	(80.43)	(96.04)	
7	Total comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	129.13	(87.28)	(15.68)	(52.04)	(80.43)	(100.93)	
8	Equity Share Capital	1,332.48	1,332.48	1,332.48	1,332.48	1,332.48	1,332.48	
9	Earnings per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinuing operations) -	274255			2000	X70,000.00	V10-07-70	
	(i) Basic	0.97	(0.66)	(0.12)	(0.39)	(0.60)	(0.76)	
- 1	CO. Dillate d	0.07	(0.00)	10.400	(0.00)	(0.00)	10.701	

i.e. www.bseindia.com and on the company's website www.vxl.net Date: 03-02-2021

Whole Time Director

For Arvind Limited

Chairman & Managing Director

Sanjay S. Lalbhai

Compliance Officer Place: New Delhi M. No.: A45917

Date: 04.02.2021

December, 2020.

Sd/-Company Secretary &

By order of the Board B.C. Power Controls Limited

ended 31[™] December 2020.

.imited) i.e. www.bseindia.com

dealing in the Securities of the Company was

closed for all directors, officers and

designated employees of the Company from

01" day of January 2021 to 48 hours after the

declaration of Financial results for the quarter

1. The above unaudited consolidated financial results were reviewed by the Audit Committee and have been considered and approved by the Board of Directors at their meeting held on February 04, 2021. The same have been subjected to Limited Review by the Statutory Auditors. Exceptional items represents following: **Particulars** Nine Months Ended Year Ended **Quarter Ended 31.12.2020** | 30.09.2020 | 31.12.2019 | **31.12.2020** | 31.12.2019 2.86 1.86 2.86 8.13 0.37 19.85 19.48 (4.95)Impact Due to Covid19 Loss of Mark to market of derivative financial instruments Allowances for doubtful receivables (c) Reversal of Benefit under Garment and Apperal Policy, 2017 0.37 1.86 22.34 standalone financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2019 are available on Company's website (www.arvind.com)

31.03.2020 (a) Retrenchment Compensation 18.71 (b) Provision for Impairment/Loss on Sale of Investments/share application money 11.82 (c) Reversal of Excise Duty Provision (4.95)11.40 6.94 (b) 6.29 (c) 50.21 Total The company has intimated the Stock Exchange to publish only Consolidated Financial results and hence, the standalone financial results have not been published. However, the

Particulars Quarter Ended Nine Months Ended **31.12.2020** | 30.09.2020 | 31.12.2019 | **31.12.2020** | 31.12.2019 31.03.2020 1371.79 3034.57 6705.31 1169.75 1695.70 5215.75 Revenue Profit / (Loss) before Tax 70.19 21.88 77.82 (43.14)214.52 250.11 Profit / (Loss) after Tax 46.44 70.70 53.96 40.28 147.62 171.38 Other Comprehensive Income / (Loss) (net of tax) 14.99 16.85 (5.09)46.04 (30.35)(49.92)Total Comprehensive Income / (Loss) after tax 61.43 87.55 48.87 86.32 117.27 121.46 World Health Organization (WHO) declared outbreak of Coronavirus Disease (COVID-19) a global pandemic on March 11, 2020. Consequent to this, Government of India declared

lockdown on March 23, 2020 and the Group temporarily suspended the operations in all the units of the Group in compliance with the lockdown instructions issued by the Central and State Governments. COVID-19 has substantially impacted the normal business operations of the Group by way of interruption in production, supply chain disruption, unavailability of personnel, closure/lock down of production facilities etc. during the lock-down period which has been extended till May 17, 2020. Production and supply of goods has commenced at various dates during the month of May 2020 and in a staggered manner at some of the manufacturing locations of the Group after obtaining permissions from the appropriate government authorities. The Group has made detailed assessment of its liquidity position for the next 12 months including unutilized sanctioned credit limits and avenues to raise new funds / refinancing,

recoverability of its assets comprising of property, plant and equipment, intangible assets, right of use assets, investments, inventories and trade receivables. Based on current indicators of future economic conditions and estimates made by the Management of the Group, the Group expects to recover the carrying amount of these assets. It expects short term challenges in operating environment and has undertaken various cost containment initiatives which will yield results in medium to long term. At this time, the Group expects slower recovery in domestic retail market and also expects to attain the pre-covid levels of performance in export market depending on recovery in European and US markets. The situation is changing rapidly giving rise to inherent uncertainty around the extent and timing of the potential future impact of the COVID-19 on revenue from operations, profitability recoverability of investments and account receivables. The outcome of the same may be different from that estimated as at the date of approval of these financial results. The Group has assessed the impact of the COVID-19 on its operations & profitability and recoverability of investments and account receivables and expects to recover faster compared to the estimates

As a result of lockdown the volumes for the current quarter and nine months are impacted. Revenue from operations and profitability have decreased due to COVID-19 related market volatility. Therefore, financial results for quarter and nine months ended December 31, 2020 are not comparable to previous corresponding period results.

At the time of transition to Indian Accounting Standards (IND AS) with effect from 1 April 2015, the Parent Company had recognized fair value of its land parcels in its books of accounts and recognized deferred tax liability on such fair Valued Land as Parent company expected sale of such land parcels on a piecemeal basis, delinked from the business. During the quarter ended September 30, 2020, the Parent Company has reassessed the expected manner of recovery of the carrying value of all land parcels and has now determined that a number of such land parcels would not be delinked from the business as they either form an integral part of the business operations or are proximate to the factory premises. Consequently, the Parent Company currently expects that in the event of disposal of most of the land parcels in future, these would only be disposed off along with the business and in a slump sale arrangement thereby resulting in no temporary difference between the accounting position and position as per tax laws upon such future disposal.

Accordingly, the Parent Company has reversed deferred tax liability amounting to ₹ 65.62 crores pertaining to such land parcels in the Statement of Profit and loss during the quarter The Code on Social Security, 2020 ('Code') relating to employee benefits during employment and post-employment benefits received Indian Parliament approval and Presidential assent in

September 2020. The Code has been published in the Gazette of India. However, the date on which the Code will come into effect has not been notified. The Group will assess the impact

of the Code when it comes into effect and will record any related impact in the period the Code becomes effective. Place: Ahmedabad Date: February 04, 2021

Place: Bengaluru

New Delhi

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website

CAPITAL INDIA Corporate Identity Number (CIN): L74899DL1994PLC128577 Regd. Office: 2nd Floor, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi - 110001, Ph. No. 011-49546000 Corporate office: A-1402, One BKC, 14th Floor, G-Block, Bandra Kurla Complex,

Bandra (East) Mumbai - 400051, Ph. No. 022-45036000 Website: www.capitalindia.com | Email ID: secretarial@capitalindia.com NOTICE OF BOARD MEETING

C

NOTICE is hereby given, pursuant to the applicable provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of Capital India Finance Limited "Company") is scheduled to be held on Thursday, February 11, 2021 through video conferencing, to inter alia consider and approve the un-audited financial results of the Company (both on standalone and consolidated basis), for the quarter and nine months ended on December 31, 2020. Information in this regard is also available on the Company's website

www.capitalindia.com and may also be accessed from BSE Limited's website www.bseindia.com For Capital India Finance Limited

Rachit Malhotra Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi Date: February 4, 2021 Membership No.: A39894

ASIAN ENERGY SERVICES LIMITED (formerly Asian Oilfield Services Limited) CIN: L23200MH1992PLC318353

Regd. Office: 3B, 3^{to} Floor, Omkar Esquare, Chunabhatti Signal, Eastern Express Highway, Sion (East), Mumbai - 400022, Maharashtra, India Tel.: 022-42441100;

Fax: 022-42441120 Email: secretarial@asianenergy.com; Website: www.asianoilfield.com NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the

Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 12th February, 2021, at 12.30 p.m. through audio visual mode, inter-alia, to consider and approve the standalone and consolidated un-audited Financial Results for the quarter and nine months ended 31° December, 2020. This information is also available on Company's website www.asianenergy.com and

on the website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com. For Asian Energy Services Limited Date: 05-02-2021

(formerly Asian Oilfield Services Limited) Ashutosh Kumar (DIN 06918508) Wholetime Director & CEO

Deepak Banga

Company Secretary

INOXWIND INOX WIND LIMITED CIN: L31901HP2009PLC031083

Registered Office: Plot No. 1, Khasra Nos. 264 to 267, Industrial Area, Village - Basal, District Una - 174 303, Himachal Pradesh, India, Phone/Fax: +91 1975-272001 Email: investors.iwl@inoxwind.com; Website: www.inoxwind.com NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a Meeting of the Board of

Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, the 12th February, 2021 interalia, to consider, approve and take on record the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2020. The above information is also available on the websites of the Company www.inoxwind.com,

BSE www.bseindia.com and NSE www.nseindia.com. For Inox Wind Limited

LYKA LABS LIMITED

CIN: L24230GJ1976PLC008738 Regd. Office: 4801/B & 4802/A, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar 393 002. Corporate Office: Ground Floor, Spencer Building, 30, Forjett Street, Grant Road (West), Mumbai - 400 036. Email: companysecretary@lykalabs.com NOTICE

Notice is hereby given that in terms of Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company is convened on Thursday, February 11, 2021 at its corporate office to consider and adopt Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Third Quarter December, 2020.

The said intimation will also be available on the website of BSE Ltd (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) where the equity shares of the Company are listed and will also be made available on the website of the Company viz. www.lykalabs.com.

Date: 04th February, 2021 Piyush Hindia Place: Mumbai Company Secretary & Compliance Officer

DELTA INDUSTRIAL RESOURCES LIMITED

Extracts of the Standalone Un-Audited Financial Results

for the Quarter ended December 31, 2020 (Rs. in Lakh)

held on Saturday, the 13" day of February. 2021 at its registered office situated at 7A/39, W.E.A. Channa Market, Karol Bagh, New Delhi-110005, inter alia, to consider and approve the un-audited Financial Results of the Company for the Quarter ended 31° Further details are also available on website of Company i.e. www.bcpowercontrols.com as well as website of Stock Exchange (BSE in the Audited Balance Sheet of previous year) (38.69)(38.69)(35.73)Earnings Per Share (of Rs.10/- each) Further, in accordance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015 read with (for continuing and discontinued operations) -1. Basic : 0.13 0.41 0.09 Company's Code of Conduct for Prevention of 2. Diluted 0.13 0.41 0.09 Insider Trading, the "Trading Window" for

india.com) and (www.msei.in).

For and on behalf of the Board of Directors

Date: 03.02.2021 Pawan Kumar Mittal (Director) Place: New Delhi DIN: 00749265

UN -AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31.12.2020

(ii) Diluted 0.97 (0.66)(0.12) (0.39)The above information has been extracted from the detailed Quarterly Results, filed with the Stock Exchage under Regulation 33 of the SEBI (Listing

> MV SHETTY DIN: 00515711

In a Nutshell

PNB Case: ED Attaches ₹14.45 crore Assets of Mehul Choksi, Gitanjali Group



NEW DELHI: The Enforcement Directorate (ED) has attached assets worth ₹14.45 crore belonging to the Gitanjali Group of companies and its director Mehul Choksi, an accused in the Punjab National Bank (PNB) fraud, reports Our Political Bureau. The attached assets include a 1460-sq-ft

flat at Goregaon in Mumbai, as well as jewellery, watches and a Mercedes-Benz car. The ED had earlier attached properties worth more than ₹2.550 crore in the case. The federal agency had launched a money-laundering case against Choksi, Gitanjali Gems and some others on the basis of an FIR registered by the CBI. They are accused of cheating PNB in connivance with certain bank officials.

GMR, Airbus Ink MoU for Aviation Maintenance and Other Services



HYDERABAD Airport operator and aviation infrastructure developer GMR group has signed a memorandum of understanding with commercial aircraft manufacturer Airbus to explore potential

synergies in strategic areas of aviation services including maintenance, components, training, digital and airport services, reports Our Bureau. In terms of the MoU signed at Aero India 2021 at Bengaluru on Thursday, the two companies will explore a broad scope of aviation services for both commercial and military aircraft to benefit the entire aerospace ecosystem in the country. "Under this partnership, GMR and Airbus teams will work together and innovate across areas," said SGK Kishore, executive director - south and chief Innovation Officer, GMR Airports.

ZEE PAT Grows 14.4% to ₹400 crore in Dec Quarter; Revenue Rises 33.2%



MUMBAI Zee Entertainment Enterprises (ZEE). India's largest listed entertainment company, has reported a 14.4% increase in its profit after tax (PAT) for the guarter ended December 31, 2020, reports

Our Bureau. The company has posted a consolidated PAT of ₹399.9 crore against a net profit of ₹349.4 crore in the year-ago quarter. Operating revenue for the quarter stood at ₹2,729.3 crore from ₹2,048.7 crore a year ago, recording a 33.2% jump. During the quarter under review, ZEE's consolidated domestic advertising revenue improved by 7.5% to ₹1,302 crore. The company said a 43.6% jump in advertising revenues over the preceding quarter (Q2 FY21) points at a sharp recovery post H1 and reflects the rebound in consumer demand and spending.

TCS to Replace 63 Moons as Technology Vendor for MCX



MUMBAI Tata Consultancy Services (TCS) will replace 63 moons as the technology vendor for MCX, which runs the country's largest commodity derivatives segment, reports Ram Sahgal. The

exchange has a technology agreement with 63 moons through September 2022. The decision to award the contract to TCS was taken by the MCX board on February 4. "... the Board of Directors of MCX at its meeting held today, has decided to award the contract for implementation of Commodity Derivatives Platform to M/s Tata Consultancy Services... it was decided to issue Letter of Intent to TCS to commence the project immediately," MCX informed the stock exchanges late evening on Thursday.

M Mayur Uniquoters Limited

Regd. Office and Works: Village-Jaitpura, Jaipur-Sikar Road, Tehsil-Chomu, Distt. Jaipur-303704 (Raj.) India. Website: www.mayuruniquoters.com Email: secr@mayur.biz Tel: 91-1423-224001 Fax: 91-1423-224420 CIN: L18101RJ1992PLC006952

NOTICE OF BOARD MEETING Under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, February 12, 2021 at 1:30 P.M. through Video Conferencing, interalia, to consider and approve the Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the guarter and nine months ended on December 31, 2020 and to take on record the Limited Review Report thereon.

The information contained in this notice is also available on the Company's website www.mayuruniquoters.com and also on the website of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Mayur Uniquoters Limited Rahul Joshi Date: February 04, 2021 Company Secretary & Compliance Officer Membership No. ACS33135 Place: Jaipur

By the Order of the Board

vedanta

balco

SUPPLY & SERVICES PARTNERS FOR ALUMINIUM SMELTER & POWER PLANT

EXPRESSION OF INTEREST

Vedanta Limited, a subsidiary of Vedanta Resources Limited, is the world's leading Oil & Gas and Metals company, and one of the largest producers of Oil & Gas, Zinc, Lead, Silver, Copper, Iron Ore, Steel, and Aluminium & Power across India, South Africa, Namibia, and Australia.

Vedanta's Aluminium & Power Business is India's largest primary aluminium producer having an installed smelting capacity of ~2.2 MTPA. Bharat Aluminium Company Limited (BALCO), a Vedanta subsidiary, operates a 0.57 MTPA aluminium smelter at Korba, in Chhattisgarh. With the vision to be a future-ready and cost-competitive aluminium & power producer in the world, BALCO invites Expression of Interest (EoI) from competent Indian and international partners with relevant experience for supply and services listed below:

- Generator stator with global vacuum pressure impregnation (GVPI) suitable for existing
- 135 MW model for one-to-one replacement Complete generator, rotor and cooling system
- Procurement of IT equipment
- Procurement of conveyor belt Supply/ vendor managed inventory of luminaries
- Supply & installation of automatic side stream filter (sand filter) Supply & installation of fan-less cooling tower spray (pond type)
- Economizer coils for reliability improvement of 135 MW boiler Design, engineering, supply and installation process for water management system on EPC basis
- Supply and installation of slot cutting machine in carbon plant
- Upgradation of pot controller in the existing potlines · Feasibility studies for infrastructure, levee, ash loading & water recirculation

Expression of Interest to be submitted by 12th February 2021 to E-Mail: tender.need@vedanta.co.in For further information, bidders can login to: http://www.balcoindia.com/tenders/

* BALCO reserves its right not to proceed with the work notified in the EOI at any time without assigning any reason at its sole discretion.



हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED

SUSTAINABLE &

RESPONSIBLE DEVELOPMENT

SUPPLY & SERVICES FOR


ALUMINIUM & POWER

PLANT

(A Maharatna Company)

Registered Office: 17, Jamshedji Tata Road, Mumbai - 400 020

Website:www.hindustanpetroleum.com Email:corphqo@hpcl.in CIN: L23201MH1952GOI008858



EXTRACT OF THE STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2020

	24									(₹ in crore)
	St	tandalone Resu	lts	70	Consolidated Results					
Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended
	31.12.2020 Un-Audited	31.12.2019 Un-Audited	31.12.2020 Un-Audited	31.12.2019 Un-Audited	31.03.2020 Audited	31.12.2020 Un-Audited	31.12.2019 Un-Audited	31.12.2020 Un-Audited	31.12.2019 Un-Audited	31.03.2020 Audited
Total income from operations	77,412.68	74,589.42	185,122.77	215,862.37	287,416.93	77,482.85	74,659.66	185,313.19	216,087.73	287,742.05
Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	3,157.87	1,150.84	10,178.28	4,006.85	2,575.52	3,169.59	1,420.45	10,127.25	4,027.15	2,377.22
Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	3,157.87	1,150.84	10,178.28	4,006.85	1,572.59	3,169.59	1,420.45	10,127.25	4,027.15	1,374.29
Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	2,354.64	747.20	7,645.92	2,610.46	2,637.26	2,373.71	1,027.23	7,602.19	2,666.36	2,638.73
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit /(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,397.61	767.54	7,662.36	2,524.06	2,186.56	2,451.91	1,044.62	7,729.35	2,566.10	1,980.91
Reserves (excluding Revaluation Reserves)			· · · · · · · · ·	-	27,438.15				-	29,456.41
Paid up Equity Share Capital (Face Value ₹ 10/- each)	1,498.63	1,523.82	1,498.63	1,523.82	1,523.82	1498.63	1,523.82	1498.63	1,523.82	1,523.82
Basic and Diluted Earning Per Share (of ₹ 10/- each) (not annualised)	15.51	4.90	50.24	17.13	17.31	15.63	6.74	49.95	17.50	17.32

NOTES:

Place : Mumbai

Date: February 04, 2021

1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Nine Months Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Nine Months Financial Results is available on the Company's Webpage - (http://www.hindustanpetroleum.com/Financial) and Stock Exchange websites (www.bseindia.com) & (www.nseindia.com)

Wear reusable

face cover

Previous period figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary.

भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

/hpcl / /hpcl / /hpcl

www.hindustanpetroleum.com

By order of Board Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

sd/-R. Kesavan Director (Finance) DIN: 08202118

INDIA'S CONSUMPTION RIDES ON WHO CONSUMES OUR NEWS.

The Times Group's publications reach out to

23 MILLION affluent Indians*.

They are among the 16% of India's population who drive 56% of India's consumption ~ amounting to Rs. 110 Trillion**.

>100 MINUTES

are spent by our readers in a week, reading the newspaper.

Clearly, with The Times Group, you reach India's most premium and engaged audiences.



*Affluent Audiences is NCCS A population, Total Readership (A BCCL Newspapers, Main Publications excluding variants) IRS 2019 Q4; **BCG Report | Going For Gold, Feb 2019; Avg. time spent as per IRS 2019 Q4.

THE TIMES OF INDIA THE ECONOMIC TIMES Mumbai Mirror TERRITOR OF INDIA





Growing Exponentially Power with Profits!!

Wash hands

thoroughly

frequently and

Physical

2 Gaj Ki Doori Distance



SI. No.	Particulars	Standalone					Consolidated				
		Quarter ended 31.12.2020 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2019 (Unaudited)	Nine months ended 31.12.2020 (Unaudited)	Nine months ended 31.12.2019 (Unaudited)	Year ended 31.03.2020 (Audited)	Quarter ended 31.12.2020 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2019 (Unaudited)	Nine months ended 31.12.2020 (Unaudited)	Nine months ended 31.12.2019 (Unaudited)	Year ended 31.03.2020 (Audited)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Total income from operations	24509.26	23496.35	72639.86	70453.51	97700.39	27526.03	26478.33	81428.55	79073.53	109464.04
2	Net profit before tax (before exceptional items)	3561.59	3422.04	11489.31	10082.15	14465.92	4298.99	3886.47	12978.06	11684.98	16377.51
3	Net profit before tax (after exceptional items)	3561.59	3422.04	10126.31	10082.15	14465,92	4296.91	3886.47	11469.02	11684.98	16377.51
4	Profit after tax	3315.34	2995.14	9290.30	8860.37	10112.81	3876.36	3351.28	10319.91	10272.12	11901.98
5	Profit after tax attributable to owners of the parent Company						3766.46	3264.07	10092.84	10065.53	11600.23
6	Total comprehensive income after tax	3279.89	2942.19	9167.73	8680.62	9785.59	3833.91	3298.60	10167.05	10092.66	11594.26
7	Paid-up equity share capital (Face value of share ₹ 10/- each)	9696.67	9894.56	9696.67	9894.56	9894.56	9696.67	9894.56	9696.67	9894.56	9894.56
8	Other equity excluding revaluation reserve as per balance sheet					103674.88					108944.60
9	Earnings per share (of ₹ 10/- each) - (not annualised) (including net movement in regulatory deferral account balances): Basic and Diluted (in ₹)	3.35	3.03	9.39	8.95	10.22	3.81	3.30	10.20	10.17	11.72
10	Earnings per share (of ₹ 10/- each) - (not annualised) (excluding net movement in regulatory deferral account balances): Basic and Diluted (in ₹)	2.42	1.41	7.30	5.95	5.34	2.86	1.79	7.95	7.16	6.80

The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the financial results of the Company are available on the investor section of our website https://www.ntpc.co.in and under Corporate Section of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at https://www.bseindia.com & https://www.nseindia.com respectively.

2 Previous periods figures have been reclassified wherever considered necessary.

For and on behalf of Board of Directors of

NTPC Limited (A.K.Gautam) Director (Finance)

DIN: 08293632 Regd. Office: NTPC Bhawan, SCOPE Complex, 7, Institutional Area, Lodi Road, New Delhi - 110003 CIN: L40101DL1975GOI007966, Website: www.ntpc.co.in

NTPC Limited (A Govt. of India Enterprise) Leading the Power Sector

Place: New Delhi

Date: 4 February, 2021

SD Telugu news papers

Follow us on: 1 /ntpc1 /ntpclimited /ntpcltd1 /ntpcltd1 /ntpclimited

इंडिया बिजनस ट्रेंड्स

ब्रीफ न्यूज...

फ्लिपकार्ट होलसेल के ऐप पर अब किराना भी

नई दिल्ली / एजेंसी । फ्लिपकार्ट होलसेल ने अपने ऐप पर अब किराना को भी जोड़ लिया है। फ्लिपकार्ट समूह के डिजिटल बी2बी मार्केटप्लेस ने कहा कि इससे किराना दुकानदारों और छोटे रिटेलरों की कई उत्पादों तक पहुंच सुनिश्चित होगी। कंपनी ने बयान में कहा कि शुरुआत में किराना श्रेणी गुरुग्राम के खुदरा दुकानदारों को उपलब्ध होगा। वे फ्लिपकार्ट होलसेल ऐप पर उत्पादों के लिए ऑर्डर दे सकेंगे। कंपनी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य इलाकों तथा देश के अन्य हिस्सों में इस सेवा का विस्तार अगले कुछ माह में किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि फ्लिपकार्ट होलसेल बिलासपुर, गुरुग्राम में एक लाख वर्गफुट के फुलिफलमेंट सेंटर का परिचालन करेगी। इससे किराना दुकानदारों को सीधे उनकी दुकान पर आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

एक्स७ फाइव जी सीरीज में रियलमी की तरफर्से २ फोन लॉन्च



नई दिल्ली / एजेंसी । रियलमी ने भारत में एक्स7 फाइवजी और एक्स7 प्रो 5जी के लॉन्च के साथ अपने एक्स सीरीज का विस्तार किया है। कंपनी का मकसद आने वाले समय में देश में 5जी के क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढाना है। रियलमी ने कहा एक्स7 फाइव जी को दो रंगों में उपलब्ध कराया जाएगा– स्पेस सिल्वर और नेब्युला। 6जीबी प्लस 128जीबी वेरिएंट के लिए इसकी कोमत 19,999 रखी गई है और 8जीबी प्लस 128जीबी की कीमत 21,999 रखी गई है। एक्स7 प्रो 5जी कीमत 29,999 रखी गई है। इसे भी दो कलर वेरिएंट में पेश किया जाएगा - फंतासी और मिस्टिक ब्लैक।

इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए जल्द लॉन्च होगा वर्टिकल फीड

नई दिल्ली / एजेंसी । फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम पर अभी स्टोरीज के लिए एक नए वर्टिकल फीड पर काम चल रहा है। टेकक्रंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्टिकली स्टोरीज को स्वाइप अप और डाउन करने का अनुभव काफी हद तक इंस्टाग्राम रील्स के समान होगा, जिसे हाल ही में चीनी शार्ट वीडियो मेकिंग ऐप का मुकाबला करने के लिए फेसबुक द्वारा लॉन्च किया गया था। वर्टिकली स्टोरीज को स्वाइप करने का अनुभव टैप और हॉरिजोन्टल फ्लिक्स के मुकाबले काफी ज्यादा नैचुरल होगा।

एचसीएल ने एयरबस के साथ डिजिटल कार्यस्थल सेवा समझौता किया

नई दिल्ली / एजेंसी । प्रमुख आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नालॉजीज ने कहा कि उसने एयरबस के साथ पांच साल का डिजिटल कार्यस्थल सेवा समझौता किया है। हालांकि, इस समझौते के वित्तीय विवरण की जानकारी नहीं दी गई। कंपनी ने एक बयान में कहा कि एचसीएल वैश्विक स्तर पर एयरबस के अधिकांश कर्मचारियों की सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक आधुनिक डिजिटल कार्यस्थल स्थापित करेगी। एचसीएल टेक्नालॉजीज के कार्यकारी उपाध्यक्ष ने कहा कि हमें एयरबस के साथ डिजिटल कार्यस्थल परिवर्तन यात्रा में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार बनने की खुशी हैं।

50% लोगों के मुताबिक भविष्य के खर्चे सम्भालना होगा मुश्किल

नई दिल्ली / एजेंसी

केंद्रीय बजट पेश होने के बाद 49.7 प्रतिशत लोगों को लगता है कि उनके भविष्य के खचरें का प्रबंधन करना मुश्किल हो जाएगा, जबिक 34 प्रतिशत लोगों को लगता है कि खर्च बढ़ जाएगा लेकिन इसका प्रबंधन हो जाएगा। बजट पेश होने के बाद आईएएनएस सी.वोटर बजट इंस्टापोल में यह बात सामने आई। सर्वेक्षण देश के विभिन्न हिस्सों में

1,200 से अधिक लोगों के बीच किया गया। सर्वे से पता चला है कि नौ प्रतिशत लोग नहीं जानते कि वे अगले एक साल के दौरान किस तरह से अपना खर्चा निकाल पाएंगे।

सर्वेक्षण में कहा गया है कि पिछले साल की तुलना में इस तरह की सोच रखने वाले लोगों में 11.8 प्रतिशत की गिरावट आई है क्योंकि तब 38 प्रतिशत लोगों ने कहा था कि भविष्य के खर्चे को प्रबंधित करना मुश्किल हो जाएगा। वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट के बाद 44.7 प्रतिशत लोगों ने महसुस किया था कि खर्च बढेगा लेकिन इसे मैनेज किया जा सकेगा। सर्वे में शामिल 7.5 प्रतिशत लोगों



का बजटए जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया थाए उसमें 42.1 प्रतिशत लोगों ने महसूस किया कि खर्च बढ़ जाएगा लेकिन प्रबंधनीय रहेगा। निष्कर्षों से पता चलता है कि 2014 में 20.4 प्रतिशत लोगों ने महसूस किया था कि उनके भविष्य के खचरें को प्रबंधित करना मुश्किल हो जाएगा जबिक 23.1 प्रतिशत लोगों को लगता था कि उनके दिनभर के खर्च में कमी आएगी और उस समय 14.1 प्रतिशत लोगों ने इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की थी।

लगभग 56 फीसदी लोगों का मानना है कि बजट उनके मासिक खर्च को बढ़ा देगा। इससे इतर केवल 16.1 प्रतिशत लोगों का यह मानना है कि इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उसके परिणामस्वरूप उनके हाथों में अधिक पैसे बचेंगे। सर्वेक्षणकर्ता ने तीन मापदंडों के माध्यम से प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाया।

क्या बजट उनके खर्चे को बढाएगा, उन्हें अधिक बचत करने की अनुमित देगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

सर्वेक्षण के अनुसारए पिछले साल 47.3 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 56.4 प्रतिशत लोगों को उम्मीद है कि बजट उनके खचरें को बढा देगा। बहरहाल यह तुलनात्मक अध्ययन यह दर्शाता है कि अधिकांश लोगों का यह मानना था कि 2014 में राजग के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के सत्ता में आने से एक वर्ष पहले उनका खर्च बढ जाएगा। लेकिन ऐसा मानने वाले लोगों का प्रतिशत अब लगभग 25 प्रतिशत कम हो गया है जो सरकार के लिए एक राहत की बात है। इसके अलावाए 16.1 प्रतिशत लोगों का मानना है कि बजट में की गई घोषणाएं उन्हें अधिक बचत करने में मददगार होंगी।

एयर इंडिया के कर्मचारियों के हितों का संरक्षण किया जायेगा

नई दिल्ली/एजेंसी

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एयर इंडिया के कर्मचारियों के हितों को निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के मार्गदर्शन के अनसार सरक्षित रखा जाएगा। एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया ,जिस पर पिछले वित्त वर्ष में कुल 38,366 करोड़ रुपये का कर्ज था, प्रगति के रास्ते पर है।

पुरी ने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में कहा कि एयर इंडिया के कर्मचारियों के हित को वित्त मंत्रालय के निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार सुरक्षित किया जाएगा और इस बात को विनिवेश के बाद नये मालिक के साथ हस्ताक्षरित किए जाने वाले शेयर खरीद समझौते में परिलक्षित किया जाएगा। नागरिक उड़ुयन मंत्री इस सवाल पर जवाब दे रहे थे कि क्या एयर इंडिया के मौजूदा कर्मचारी एयरलाइन के साथ उसके रणनीतिक विनिवेश के बाद भी कार्यरत रहेंगे। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस में सरकार के 100 प्रतिशत हिस्सेदारी और एयर इंडिया एक्सप्रेस में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी रणनीतिक विनिवेश हेतु अभिरुचि पत्र आमंत्रित करने के लिए 27 जनवरी, 2020 को प्रारंभिक सूचना ज्ञापन जारी किया गया था। कोरोनोवायरस महामारी के मद्देनजर, अभिरुचि पत्र की समय सीमा को समय-समय पर बढ़ाया गया था और अंतिम तिथि 14 दिसंबर, 2020 थी।

लाहील स्फिति में बढ़ी ट्यूरिस्ट की संख्या

करीब दस हजार फीट की ऊंचाई और 9.02 किलोमीटर लम्बी अटल टनल विश्व की सबसे लम्बी टनल है। टनल की ओपनिंग होने के बाद से लाहौल स्फिति घाटी और लद्दाख में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। अटल टनल की ओपनिंग के साथ यहां पर पर्यटन की सम्भावनाएं काफी बढ़ गई हैं। इससे यहां के स्थानीय लोगों को लाभ हो सकता है। प्रतिदिन करीब 4,000 वाहन अटल टनल से होकर गुजर रहे हैं यानि कि करीब 16,000 विजिटर्स आ रहे हैं और इससे समय की काफी बचत होती है। जब यह टनल नहीं बनी थी तब लाहौल स्फिति वाया रोहतांग पास के लिए करीब दो हजार (अप्रेल से सितम्बर के बीच)लोग क्रॉस होते थे।



इनमें से अधिकांश स्थानीय लोग होते को बहुत सहुलियत हुई है। परिवहन थे। रोहतांग पास पर्यटकों के लिए आकर्षण है, साथ ही एक हर्डल भी है क्योंकि यह वर्ष में छह माह तो बंद ही रहता है। ऐसे में टनल बन जाने से सभी आते हैं और केवल एक फीसदी दूसरी

आसान हुआ है।

जानकारों के अनुसार प्रतिवर्ष करीब 3 मिलियन पर्यटक कुल्लू मनाली

था लेकिन अब समय की बचत के साथ परिवहन आसान हो गया है। टनल की शुरूआत के साथ मरीजों

ओर जाने के लिए रोहतांग पास को क्रॉस

करते हैं। गत दो माह में यह स्थिति बदल

गई है। अटल टनल की शुरूआत के बाद

27 दिसम्बर को करीब 5700 वाहन क्रॉस

(यानि करीब 22,000 विजिटर्स)हुए हैं।

टनल की केपेसिटी प्रतिदिन 6000 वाहनों

की है। पूर्व की बात करें तो सड़क मार्ग

से मनाली से केलांग जाना कठिन काम

था। मनाली से रोहतांग के बीच जाने के

लिए ऑक्सीजन सिलंडर रखने पड़ते थे।

अब यह मार्ग आसान हो गया है। पर्यटक

ही नहीं, किसान, स्थानीय लोगों को भी

टनल से बहुत लाभ हुआ है। लाहौल

पोटेटो सोसायटी के अध्यक्ष ने कहा है।

कि पहले स्थानीय स्तर पर पैदा होने

वाली सब्जियों का परिवहन कठिन होता

के लिए स्वास्थ्य सेवा भी सरलता से सुलभ हुई है। पहले मरीजों को एयरलिफ्ट करने के अलावा और मार्ग नहीं था। सर्दियों के मौसम में तो स्थानीय मरीजों को बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ता था। यहां के स्थानीय लोगों के अनुसार लाहौल अलास्का के जैसा है। यहां पर पर्यटन की बहुत विपुल सम्भावनाएं हैं। यहां पर शानदार होटल और बन जायें तो कारोबार को बूस्ट मिल सकता है। टनल के बन जाने से यहां पर नये होटल, होमस्टे, रेस्तरां और शॉप्स के लिए सम्भावनाएं बनी हैं। टनल के आसपास होटल, गेस्ट हाउस निर्मित । किये जा सकते हैं। जब ऐसा होगा तो ट्यूरिस्ट फ्लो भी बढ़ने लगेगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि सर्दियों के सीजन में यहां से जो माइग्रेशन होता है वह भी अब रुकने लगेगा।

कॉर्पोरेट बिजनेस ट्रेवल अप्रैल फिर शुरू होने को संभावना

नर्ड दिल्ली / एजेंसी । एयरलाइन्स की कॉर्पोरेट बिंकंग. जो उनकी टिकट सेल्स का एक चौथाई होती है, वह इकोनॉमी के पटरी पर लौटने के बाद फाइनेंशियल इयर 2022 के पहले क्वार्ट में रिबाउंड होने की संभावना है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को अप्रैल में कॉर्पोरेट व बिजनेस ट्रैवल प्री-कोविड लेवल के 80 फीसदी तक लौटने की उम्मीद है। इंटरग्लोब एविएशन कि

लि. की कंपनी इंडिगो को दिसंबर 2019 तक डोमेस्टिक कॉर्पोरेट कस्टमर्स से 22 फीसदी रिकॉर्ड रेवेन्यु मिला, जो आगामी महीनों में घटकर 8 फीसदी रह गया।

इंडिगो के चीफ स्ट्रैटजी एंड रेवेन्यू ऑफिसर ने कहा कि उन्हें कॉर्पोरेट हाउसेज से अच्छा रेस्पांस मिल रहा है और खास तौर पर फिलहाल पिछले दिसंबर के लंबे हॉलीडे सीजन इवेंट्स के बाद संकेत मिला कि कॉर्पोरेट्स ट्रैवल शुरू करने वाले हैं।ट्रेवल पोर्टल ईजीमाईट्रिप डॉट कॉम के को-फाउंडर व सीईओ ने कहा कि एयरलाइन बिजनेस ट्रेवल पर यह सुनिश्चित करने के लिए प्रीमियम चार्ज करती है कि तारीखें नहीं 🕂 बदली जाएंगी। इसमें वह भोजन उपलब्ध करवाती है और कैंसलेशन चार्जेज भी कम होते हैं। थोक में बुक

10-12 फीसदी तक महंगे होते हैं।

उनके मुताबिक इस समय कॉर्पोरेट बुकिंग प्री-कोविड लेवल की सिर्फ 40 फीसदी है, क्योंकि महामारी के दौरान कई लोगों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग को ज्यादा महत्व दिया। हालांकि जनवरी से बिजनेस व कॉर्पोरेट बुकिंग बढ रही है। इंडिगो के कुमार ने कहा फार्मास्यूटिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन,

ऑटोमोबाइल्स स्माल व मीडियम एंटरप्राइजेज के साथ ही अन्य कोर सेक्टर्स में भी ऑफिशियल ट्रैवल के प्लान बनने लगे हैं।यह सिलसिला कोविड के

बाद पुरी तरह थम गया था। आईटी व कंसल्टिंग सेक्टर अभी भी समय ले रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि अप्रैल तक वे भी टैवल प्लान बनाने लगेंगे।

अन्य एयरलाइन्स भी इस सेगमेंट के पिक-अप होने की उम्मीद कर रही हैं। एक सीनियर एयरलाइन ऑफिशियल ने कहा कि ओवरआल डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक हर हफ्ते सुधर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से प्राइस कैप लागू किए जाने और पैसेंजर्स को अट्टैक्ट करने के लिए डिस्काउंट की घोषणा के बाद टिकट की रेट सामान्य से कम है। कॉर्पोरेट बुकिंग बढने किए जाने वाले टिकट सामान्य टिकटों की तुलना में के बाद एयरलाइन्स को इनकम बढ़ाने में मदद मिलेगी।

विराट लगातार चौथे साल सबसे एक्सपेंसिव इंडियन सेलिब्रिटी बने

क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली 23.77 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ लगातार चौथे साल 2020 में सबसे मुल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी

रहे और इस सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर हिंदी फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार तथा रणवीर सिंह का नाम है। ब्रांड मूल्यांकन में महारत रखने वाली कंपनी डफ ऐंड फेल्प्स ने गरुवार को एक बयान में

कहा कि 2020 के लिए शीर्ष 10 सर्वाधिक मूल्यवान सेलिब्रिटी की सूची में सिर्फ कोहली फिल्म उद्योग से बाहर के हैं और इनमें सिर्फ दो महिलाएं

बयान में कहा गया कि 2020 में कोहली का ब्रांड मुल्य यथावत बना रहा, जबिक शीर्ष 20 सेलिब्रिटी ने अपने कुल मूल्य का पांच प्रतिशत या करीब एक अरब अमेरिकी डॉलर गंवा दिया। आलिया भट्ट छठे स्थान पर रहीं।

कोहली लगातार चौथे साल सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हुए हैं और कोविड.19 महामारी के बावजूद उसका ब्रांड मूल्य 23.77 करोड़ डॉलर पर स्थिर है। अक्षय कुमार का ब्रांड मूल्य 13.8 प्रतिशत की बढ़त के साथ

> 11.89 करोड अमेरिकी डॉलर रहा और वह दूसरे स्थान पर हैं। रणवीर सिंह करोड़ 10.29 डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। डफ ऐंड के फेल्प्स सेलिब्रिटी ब्रांड

मुल्यांकन अध्ययन के छठे

संस्करण के मुताबिक 2020 में शीर्ष 20 हस्तियों का कुल ब्रांड मूल्य एक अरब अमरीकी डालर था,जो 2019 के मुकाबले पांच प्रतिशत कम है। इस सूची में 5.11 करोड़ डॉलर के मूल्यांकन के साथ शाहरुख खान चौथे स्थान पर हैं, जबिक दीपिका पादुकोण 5.04 करोड डॉलर के साथ पांचवें स्थान पर रहीं।

भारत आत्मनिर्भर सुरक्षित इंटरनेट बनाने में सक्षम

नर्ड दिल्ली / एजेंसी । भारत के पास अब स्थानीय स्तर पर 10 करोड रुपये से भी कम में रूट सर्वर स्थापित कर अपना सुरक्षित इंटरनेट बनाने की क्षमता है। सार्वजनिक क्षेत्र की आईटीआई और उद्योग मंच आईपीवी6 फोरम ने यह जानकारी दी । दूरसंचार विभाग ने 2010 और 2012 में आईपीवी6 के पते की पहली और दूसरी रूपरेखा जारी की थी। इसके जरिये कई हजार अरब के विशिष्ट पते दिए जा सकते हैं। पुरानी आईपीवी4 व्यवस्था के तहत तीन अरब आईपी पते की सीमा थी। आईटीआई के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक आरएम अग्रवाल ने कहा कि आईपीवी6 वर्ष 2006 में शुरू हुआ था। भारत ने अंत में आईपीवी6 की रूपरेखा जारी की है। अब भारत आईपीवी6 पते में 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है और अंशधारकों की संख्या में दुनिया में पहले स्थान पर है। दूरसंचार विभाग में उप महानिदेशक नेटवर्क टेक्नोलॉजी के रूप में अग्रवाल ने देश में आईपीवी6 के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बीएफएल एसेट फिनवेस्ट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 1, तारानगर, अजमेर रोड, जयपुर-302006, फोन : 9214018877 E.: bfldevelopers@gmail.com, W.: www.bflfin.com • CIN: L45201RJ1995PLC010646 31 दिसम्बर 2020 को समाप्त तिमाही ⁄ नौमाही के लिए स्टैण्डएलॉन गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार् भारतीय लेखा मानको (आईएनडी-एएस) के अनपालन में तैयार

परिचालनों से कुल आय परिचालनों से कुल आय अवधिय का शुद्ध लाभ√(हानि) (कर, असाधारण और /या असाधारण वस्तुओं से पहले) कर के पहले शुद्ध लाभ√(हानि) (असाधारण और /या असाधारण वस्तुओं के बाद) कर के पहले शुद्ध लाभ√(हानि) (असाधारण और /या असाधारण वस्तुओं के बाद) कर के पहले शुद्ध लाभ√(हानि) (असाधारण और /या असाधारण वस्तुओं के बाद) कर के बाद शुद्ध लाभ√(हानि) (असाधारण और /या असाधारण वस्तुओं के बाद) अवधिय के लिए कुल व्यापक आय एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) के लिए लाभ ∕हानि समता अंश पृंजी (क्षेत्र वे (पूर्व नेल्खा वर्ष के जुलन पत्र के अनुसार पूनर्मूल्यांकन रिजर्ब के अतिरिक्त) आय प्रति शेषर (रु. 10 /∽ प्रति का) (संचालन जारी रखने और बंद करने के लिए) 1 मूल 0.37 1.51 0.51	_	समाप्त	समाप्त नौमाही		
परिचालनों से कूल आय अविध का शुद्ध लाभ / हानि) अविध का शुद्ध लाभ / हानि) अविध का शुद्ध लाभ / हानि) अतर के पहले शुद्ध लाभ / हानि) अतर के बाद शुद्ध लाभ / हानि) अतर्विध के लिए कूल व्यापक आय एवं अन्य व्यापक आय (असाधारण और / या असाधारण वस्तुएं) अविध के लिए लाभ / हानि समता अंश पृंजी विश्व (यूर्व लाभ / हानि समता अंश पृंजी विश्व (यूर्व लेखा वर्ष के जुलन पत्र के अनुसार पूनर्मूल्यांकन रिजर्ब के अतिरिक्त) आय प्रति शेषर (रु. 10 / - प्रति का) (संचालन जारी रखने और बंद करने के लिए) 1 मूल 0.37 1.51 188.0 37.73 158.2 52.21 37.73 154.44 52.21 63.64 182.28 -18.84 63.64 182.28 -18.84 63.64 182.28 -18.84 63.64 182.28 -18.84 63.64 182.28 -18.84 63.64 182.28 -18.84 63.64 182.28 -18.84 63.64 182.28 -18.84 63.64 182.28 -18.84 63.64 63.64 182.28 -18.84 63.64	विवरण	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	
अवधि का शुद्ध लाभ / (हानि) 37.73 158.2 52.21 (कर, असाधारण और / या असाधारण वस्तुओं से पहले) 37.73 158.2 52.21 (कर, असाधारण और / या असाधारण वस्तुओं के बाद) 37.73 158.2 52.21 (असाधारण और / या असाधारण वस्तुओं के बाद) 37.73 154.44 52.21 (असाधारण और / या असाधारण वस्तुएं) 37.73 154.44 52.21 (असाधारण और / या असाधारण वस्तुएं) 37.73 154.44 52.21 (असाधारण और / या असाधारण वस्तुएं) 36.64 182.28 -18.84 (कर के बाद) के लिए लाभ ∕ हानि समता अंग पृंजी 1020.35		(गैर अंकेक्षित)	(गैर अंकेक्षित)	(गैर अंकेक्षित)	
(कर, असाँधारण और या असाधारण वस्तुओं से पहले) कर के पहले शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और /या असाधारण वस्तुओं के बाद) कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और या असाधारण वस्तुओं के बाद) कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानि) अविध के लिए कुल व्यापक आय एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) के लिए लाभ / हानि समता अंश पंजी त्मात अंश अंश के अतिरिक्त) आय प्रति शेषर (क. 10/- प्रति का.) (संचालन जारी रखने और बंद करने के लिए)	परिचालनों से कुल आय	19.78	160.23	118.00	
कर के पहले शुद्ध लाभा∕(हानि) 37.73 158.2 52.21 (असाधारण और ∕या असाधारण वस्तुओं के बाद) कर के बाद शुद्ध लाभा ∕(हानि) 37.73 154.44 52.21 (असाधारण और ∕या असाधारण वस्तुओं के बाद) अविध के लिए कुल व्यापक आय एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) के लिए लाभ ∕हानि समता अंश पूर्जी 1020.35 1020.35 1020.35 रिज़र्व (पूर्व लेखा वर्ष के जुलन पत्र के अनुसार प्रमूर्ण्यांकन रिज़र्व के अतिरिक्त) आय प्रति शेषर (क. 10 / - प्रति का) (संचालन जारी रखने और बंद करने के लिए) 1 मूल 0.37 1.51 0.51		37.73	158.2	52.21	
(असाधारण और /या असाधारण वस्तुओं के बाद) कर के बाद शुद्ध लाभ / (हाि न) (असाधारण और /या असाधारण वस्तुणं) अवधि के लिए कुल व्यापक आय एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) के लिए लाभ /हाि न समता अंग एंजी 1020.35 1020.35 1020.35 1020.35 1035 1040.35 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053 10	(कर, असाधारण और/ या असाधारण वस्तुओं से पहले)				
कर के बाद शुद्ध लाभ ∕ (हानि) 37.73 154.44 52.21 (असाधारण और ⁄ या असाधारण वस्तुएं) 37.73 154.44 52.21 (असाधारण और ⁄ या असाधारण वस्तुएं) 37.73 63.64 182.28 -18.84 (कर के बाद) के लिए लाभ ∕ हानि समता अंग पूंजी 1020.35 1020.35 1020.35 1020.35 1030.35 10		37.73	158.2	52.21	
(असाधारण और / या असाधारण बस्तुएं) अवधिव के लिए कुल व्यापक आय एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) के लिए लाभ / हानि समता अंश पूंजी समता अंश पूंजी रिजर्व (पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पूर्वपृत्यांकन रिजर्व के अंतिरिक्त) आय प्रति श्रोयर (फ. 10 / – प्रति का) (संचालन जारी रखने और बंद करने के लिए) 1 मूल 0.37 1.51 0.51	(असाधारण और ⁄या असाधारण वस्तुओं के बाद)				
अवधि के लिए कुल व्यापक आय एवं अन्य व्यापक आय (63.64 182.28 -18.84 (कर के बाद) के लिए लाभ/हानि समता अंग पूर्ण 1020.35 1020.35 रिजर्व (पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पूर्म्मूल्यांकन रिजर्ब के अतिरिक्त) आय प्रति शेषर (क. 10/- प्रति का) (संचालन जारी रखने और बंद करने के लिए) 1 मूल 0.37 1.51 0.51		37.73	154.44	52.21	
(कर के बाद) कें लिए लाभ ⁄ हानि समता अंग पृंजी रिजर्ब (पूर्व नेलबा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पूनर्मूल्यांकन रिजर्ब के अतिरिक्त) आय प्रति ग्रोचर (फ. 10 ⁄ - प्रति का) (संचालन जारी रखने और बंद करने के लिए)					
समता अंश पूंजी 1020.35 1020.35 1020.35 रिज़र्ब (पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पूनर्मूल्यांकन रिज़र्ब के अतिरिक्त) अाथ प्रति शेयर (क. 10 / - प्रति का) (संचालन जारी रखने और बंद करने के लिए) 1 मूल 0.37 1.51 0.51		63.64	182.28	-18.84	
रिजर्ब (पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पूर्नपूंत्यांकन रिजर्ब के अतिरिक्त) पूर्नपूंत्यांकन रिजर्ब के अतिरिक्त) आय प्रति शेषर (रु. 10 / - प्रति का) (संचालन जारी रखने और बंद करने के लिए) 1 मूल 0.37 1.51 0.51					
आंब प्रति ग्रोयर (क. 10/- प्रति का.) (संचालन जारी रखने और बंद करने के लिए) 1 मूल		1020.35	1020.35	1020.35	
आंब प्रति ग्रोयर (क. 10/- प्रति का.) (संचालन जारी रखने और बंद करने के लिए) 1 मूल	रिज़र्व (पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार	-	-	-	
(संचालन जारी रखने और बंद करने के लिए) 1 मूल					
1 मूल 0.37 1.51 0.51	आय प्रति शेयर् (रु. 10/- प्रति का)				
0					
2 1.51 0.51	2 तरल	0.37	1.51	0.51	

टिप्पणी : (1) 31 दिसम्बर 2020 को समाप्त तिमाही∕ नौमाही के लिए गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है जिसकी 04 फरवरी, 2021 को आयोजित संबंधित मीटिंग में अंकेक्षण समिति ने उपरोक्त परिणामों को समीक्षा की है एवं निदेश मण्डल ने उपरोक्त परिणामों को मंजूरी दे दी है। सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा और सेबी (सूर्चीकरण दायित्व ए प्रकटीकरणआवश्यकताएँ)विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर किया गया। समाप्त तिमाही नौमाही के गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा की वेबसाईट www.bflfin.com पर उपलब्ध है। (2) कंपनी के गैर अंकेक्षित स्टैण्डअलोन वित्तीय परिणाम भारतीय लेखा मानव दिनांक : 04 फरवरी, 2021

ह. महेन्द्र कुमार बैद (प्रबन्ध निदेशक) DIN: 00009828

(शेयर डाटा को छोड़कर रु. लाखों में)

ऑनलाइन सेल्स बेहतर बने रहने की उम्मीद

गुड्स कम्पनियां यह उम्मीद कर रही हैं कि ई-कॉमर्स सेल्स किसी भी और रिटेल चैनल के मुकाबले में तेजी से आगे बढ़ेगी। कन्वीनियंस और बेहतर प्राइसिंग के चलते ऐसा सम्भव होगा। आर्थिक गतिविधियां बेशक सामान्यतः की ओर बढ़ रही है लेकिन फिर भी ऑनलाइन बिक्री का बोलबाला कम नहीं होने वाला। ई-कॉमर्स ने लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद भी बेहतर प्रदर्शन किया है। हिंदुस्तान यूनीलीवर के प्रवक्ता के अनुसार लोग घरों पर रहना चाहते हैं और इसलिये ई-कॉमर्स बड़ी सम्भावना के रूप में सामने है। प्री-कोविड की बात करें तो एचयूएल की ई-कॉमर्स हिस्सेदारी 3 से 4 फीसदी थी जो बढकर 6 फीसदी हो गई है। आईटीसी के प्रवक्ता के अनुसार उनकी कुल बिक्री में ई-कॉमर्स का योगदान 2.6 प्रतिशत (2019-

नर्ड दिल्ली / एजेंसी। देश की बडी फास्ट मुविंग कन्ज्युमर 20)से बढकर 5 प्रतिशत (2020)हो गया है। आईटीसी फ्रोजन फूड, पैक बिस्कुट, शैम्पू, डियोडरेंड आदि विस्तृत पोर्टफोलियो का विक्रय करती है। उनके अनुसार देश के नये उपभोक्ता तेजी से ऑनलाइन शॉपिंग चैनल को अपना रहे हैं और डिजीटल पेनीट्रेशन में सुधार आ रहा है। एवेरल बिल वैल्यू और परचेज किये गये समान की लिस्ट लम्बी हो रही है। शुरूआत जरूरी समान से हुई और इसमें और चीजें शामिल होती जा रही है। लोगों को कोरोनाकाल में यह चैनल पसंद आ गया और अब हैबिट होती जा रही है।

देश में होने वाली कुल एफएमसीजी सेल्स में से ई-कॉमर्स का योगदान कुल मिलाकर 3 फीसदी हो गया है। पीक लॉकडाउन के समय में ई-कॉमर्स कन्वीनियंस के कारण लोकप्रिय हो गया। अब बेहतर प्राइसिंग, प्रमोशंस, डील्स के कारण चल रहा है। जियोमार्ट ने इस सेक्टर को और गति प्रदान कर दी है। देश के सबसे बडे बिस्कृट उत्पादक पारले प्रोडक्ट्स के सीनियर केटेगरी हैड ने कहा कि आगे यह ट्रेक और गति पकड़ेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पार्ट जियोमार्ट ने दिसम्बर, 2019 में शुरूआत की थी लेकिन मई, 2020 में लॉकडाउन के दौरान उसने ऐसा ट्रेक पकड़ा कि वर्तमान में वह प्रतिदिन औसतन 500,000 ऑर्डर प्रोसेस कर रहा है। बेवेरेज और स्नेक्स का उत्पादन करने वाली पेप्सीको को भी यही लगता है कि ई-कॉमर्स फोकस एरिया रहने वाला है। देश में डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूसेज बढने को देखते हुए पेप्सीको ई-कॉमर्स पर इनोवेशन और मॉर्डन सप्लाई चेन को बढ़ावा देती रहेगी। कोविड के दौरान लोगों ने जिस प्रकार से डिजिटल को एडॉप्ट किया है, उसके देखते हुए पेप्सीको के अलावा नीविया, आईटीसी, पीएंडजी, मेरिको और बिस्लरी ने देश में अपने स्वयं के वेबस्टोर्स लांच किये हैं।

मयूर यूनीकोटर्स लिमिटेड

पंजीकत कार्यालय एवं फैक्टी : ग्राम जैतपुरा, जयपुर सीकर रोड, तहसील चौमू, जिला जयपुर, 303704 (राज.) भारत **टेलीफोन**: 91-1423-224001; **फैक्स**: 91-1423-224420; **सीआईएन**: एल18101आरजे1992पीएलसी006952 वेबसाइट: www.mayuruniquoters.com; ईमेल: secr@mayur.biz

निदेशक मंडल की बैठक की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय मण्डल (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के नियमन 47(1)(ए) के साथ पठित नियमन 29 के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, फरवरी 12, 2021 को दोपहर 01:30 बजे वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित की जायेगी। इस बैठक में कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा कम्पनी के दिसंबर 31, 2020 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही अनअंकेक्षित एकिकृत एवं समेकित वित्तीय परिणामों एवं सीमित समीक्षा रिपोर्ट पर विचार तथा अनुमोदन किया जाएगा तथा उन्हें स्वीकृति दी जायेगी।

इस सूचना की जानकारी कंपनी की वेबसाइट w w w.mayuruniquoters.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

मंडल के आदेशानसार मयूर यूनीकोटर्स लिमिटेड के लिए

दिनांक : फरवरी 4, 2021 स्थान : जयपुर

राहुल जोशी कम्पनी सचिव एवं अनपालन अधिकारी

